




अच्छा निंद सोएं



स्वस्थ भोजन खाएं



कसरत करें

संक्रमण से बचाव के उपाय

नोवल कोरोना वायरस
新型コロナウイルス

COVID-19



आँखों, नाक और मुँह को न छुएं



हाथों को बार बार धोएं



नाक और मुँह ढक्कें
थूक के छिटे न फैलाएं



सामाजिक दुरी बनाए रखें



विरामी होते समय घर से बाहर न जाएं



@ancov2020

SNS # 感染予防のためにできること

www.bowlgraphics.net/covid19

note.com/ancov